



CIN : L74110HP2004LC027558

June 01, 2023

To

The Listing Department  
Bombay Stock Exchange Limited  
Department of Corporate Services  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street  
Mumbai – 400001

The Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block-G  
Bandra Kurla Complex  
Mumbai – 400051

Trading Symbol: JHS

Scrip Code: 532771

**Subject: Submission of Copies of Published Newspaper Advertisements of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023.**

Dear Sir,

Pursuant to provisions of Regulation 33 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. (“Listing regulations”) the Board of Directors in its meeting held on 30<sup>th</sup> May, 2023 considered and approved the Audited (Standalone and Consolidated) Financial results for the quarter and year ended March 31, 2023.

Further the extract of the Financial Results, according to Regulation 47 of listing regulations, were published on June 01, 2023, in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi). Copies of the same are hereby enclosed for your records.

Furthermore, the results are also uploaded on the website of the company viz. <http://www.svendgaard.com>

This is for your kind information and record. Kindly acknowledge the receipt.

**Thanking You,  
For JHS Svendgaard Laboratories Limited**

**Komal Jha  
Company Secretary & Compliance officer**

Encl: A/a

**COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED**  
 Regd. Office: "Coromandel House", 1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad - 500 003, Telangana  
 Email ID: investorsgrievance@coromandel.murugappa.com, Website: www.coromandel.biz  
 CIN: L24120TG1961PLC000892, Tel: +91-40-6699 7000, Fax: 040-2784 4117

**NOTICE**  
**Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund Authority**

Notice is hereby given that the shares of the Company, in respect of which the final dividend declared by the Company for the financial year 2015-16 remains unpaid or unclaimed, are due to be transferred to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF) on August 30, 2023, as required pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

Accordingly, the shareholders of the Company, who are yet to claim dividend for the financial year 2015-16, are requested to claim such dividend on or before August 14, 2023, failing which no claim shall thereafter lie against the Company. Individual communication is also being sent to the concerned Shareholders, whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, at their address registered with the Company, giving details of the shares due for transfer to the IEPF Authority. Such details are also available on the website of the Company <https://www.coromandel.biz/>. In case valid claim is not received from the Shareholders on or before August 14, 2023, the Company will proceed to transfer the shares to the IEPF Authority as per the stipulated procedure.

In this connection, please note the following:  
 • In case of shares held in physical form: Duplicate Share Certificates will be issued and transferred to IEPF. The original share certificates registered and held in shareholder's name will automatically stand cancelled.  
 • In case of shares held in electronic form: The Company shall inform the Depository by way of corporate action for transfer of shares lying in shareholder's demat account in favour of IEPF.

Consequent upon transfer, the concerned shareholder can claim the unpaid or unclaimed dividend and the shares from the IEPF Authority by sending physical copy of the requisite documents to the Company for obtaining the entitlement letter, pursuant to Circular dated July 20, 2022 issued by the IEPF Authority, and thereafter submitting online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in).

For further information or clarification, the concerned shareholders may contact the Company or the Registrars & Share Transfer Agents (KFin Technologies Limited), at the following address:

Coromandel International Limited Regd. Office: "Coromandel House", 1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad - 500 003 Tel No.: +91-40-6699 7000 Fax: +91-40-2784 4117 Email: investorsgrievance@coromandel.murugappa.com Website: www.coromandel.biz	KFin Technologies Limited Regd. Office: Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad - 500 032 Tel.: +91-40-6716 1616 / 1560 Fax No.: +91-40-2342 0814 Toll Free No.: 1800-3094-001 Email: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com
--	---

For Coromandel International Limited  
 Place: Secunderabad  
 Date: May 31, 2023  
 Rajesh Mukhija  
 Sr Vice President - Legal & Company Secretary

**JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED**  
 Redg Office: Trilokpur Road, Kheri (Kala-amb), Tehsil-Nahan, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh - 173030, INDIA  
 CIN: L74110HP2004PLC027558

**EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2023**

Particulars	Quarter Ended 31st March 2023		Quarter Ended 31st December 2022		Quarter Ended 31st March 2022		Year Ended 31st March 2023		Year Ended 31st March 2022	
	Audited		Unaudited		Audited		Audited		Audited	
	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)
Total income from operations	3,320.90	2,711.85	2,149.47	11,060.44	9,564.23					
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional item and/or extraordinary items)	225.87	(212.16)	(5.97)	(320.96)	10.30					
Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and/or extraordinary items)	(1,637.19)	(212.16)	(5.97)	(2,184.02)	10.30					
Net Profit / (Loss) for the period (after tax exceptional and/or extraordinary items)	(1,012.78)	(208.21)	(443.41)	(1,677.53)	(428.94)					
Total comprehensive income for the period	(1,026.72)	(207.16)	(442.15)	(1,687.44)	(421.09)					
Equity Share Capital (Face value of Rs 10 each)	6,490.05	6,490.05	6,490.05	6,490.05	6,490.05					
Earnings per equity share (of Rs 10 each)										
(a) Basic (Rs)	(1.52)	(0.24)	(0.68)	(2.34)	(0.63)					
(b) Diluted (Rs)	(1.52)	(0.24)	(0.68)	(2.34)	(0.63)					

**Extract of Audited Standalone Financial Results**

Particulars	Quarter Ended 31st March 2023		Quarter Ended 31st December 2022		Quarter Ended 31st March 2022		Year Ended 31st March 2023		Year Ended 31st March 2022	
	Audited		Unaudited		Audited		Audited		Audited	
	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)	(Rs in Lacs)
Total income from operations	2,817.97	2,266.88	1,926.01	9,497.92	8,804.98					
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities but before tax)	(1,605.63)	(177.08)	13.33	(1,971.91)	192.39					
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities and tax)	(943.76)	(179.49)	(368.65)	(1,514.09)	(244.17)					
Total comprehensive income for the period	(962.04)	(178.45)	(368.03)	(1,529.24)	(240.01)					

Notes: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and Year ended 31st March, 2023 as reviewed by Audit Committee and approved by Board in its meeting dated May 30, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full format of the Financial Results for the quarter and Year ended May 30, 2023 are available at the website of the BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and also on Company's website at [www.svendgaard.com](http://www.svendgaard.com).

For and on behalf of  
**JHS Svendgaard Laboratories Limited**  
 Sd/-  
 Nikhil Nanda  
 Managing Director  
 DIN 00051501

Date: 30-05-2023  
 Place: New Delhi

# 'Will focus on innovations to reach next 200 mn users'

Come rain or shine, **MANISH TIWARY**, vice-president and country manager, consumer business, Amazon India, never misses his morning run. He runs at least 5 kilometres every day and uses Hoka Mach 5 running shoes. Tiwary is bringing the same mental and physical toughness to oversee day-to-day operations at the e-commerce giant and head an army of thousands of employees in India. In an interview with Peerzada Abrar at Amazon's office in Bengaluru's World Trade Centre, Tiwary says it is still early days for Amazon India. Edited excerpts.

**Amazon launched its first shopping website in India in June 2013. How do you view these 10 years in the country?**  
 During the early days, we created a lite application (app), which would be impacted less even in regions that did not have good network coverage. We were the first to use the 'pay on delivery' model. We introduced various languages early, from English and Hindi to South Indian languages. We launched Seller Flex, in which you can keep the inventory at your warehouse and use our technology, and we would pick up the order and dispatch it reliably. We built a mobile app for sellers because they would not use a desktop. It is now available in five languages, besides English. Even for logistics, early on, we realised that in every neighbourhood, there are kirana stores that know everyone in that locality. We worked with them as delivery partners. Now millions of packets get delivered through this.

**Amazon founder Jeff Bezos predicted that the 21st century was going to be the 'India's century'. What are the new opportunities that you are looking at in the country?**

India promises to be an exciting country in the next decade. If you take the penetration of e-commerce, it will probably be about 3 per cent in fashion and 1 per cent in grocery. Now do it with the fact that we are the country with probably one of the youngest age profiles. Our per capita income is hovering at \$2,200-2,300. There is a lot of data that shows that once you start crossing a certain point, consumption explodes, and that is what happened with countries like China. If you line up these factors together, that is what our focus is going to be.

There is so much headroom for growth that we could live off this particular combination of factors for the next few decades. To do that, we have to do a lot of innovation (like live commerce) and reach the next 200 million customers. We need to innovate because what worked for the first 1.1 million sellers might not work for the next set of sellers. Our innovations would also be focused on driving the flywheel, which is getting more sellers, more selection, and our goods faster into the hands of the consumer.



**OUR SELLER FEE PHILOSOPHY IS DIFFERENT... TWICE A YEAR THE FEE GETS CHANGED, SOMETIMES THEY GO UP AND SOMETIMES THEY GO DOWN, IT'S NOT JUST IN A LINEAR DIRECTION**

**Industry experts say that shopping across e-commerce platforms is growing slower than anticipated. Are we witnessing any slowdown in the e-commerce and retail sectors?**

The growth in January last year can't be compared to January this year, as the Covid tailwinds last year were very high. But the rest of the businesses are doing well. I continue to be optimistic. There is a lot of innovation happening in the e-commerce space. Factors such as rising income and e-commerce online penetration being very low will continue to play a role. Last year was the first festival sale after Covid, and it did go well. The way per capita is growing, consumption boost will also be significant. It should be a better Diwali this year.

**Amazon India recently increased seller fee for several key categories. Do you see this spurring other e-commerce players to increase their seller fee?**

Our seller fee philosophy is different. It's based on our cost of operations, which we believe is the sweet spot for our sellers to do business. We have a cadence where twice a year the fees get changed; sometimes they go up and sometimes they go down. There is nothing odd about this. Some other marketplaces may look at it as a way to change their fee, but we would never do it at the expense of the seller's business.

**Amazon recently said it would put \$12.7 billion into Amazon Web Services in India by 2030. Do you see Amazon's India focus shifting from e-commerce to Cloud computing?**

Whether it's Cloud, 100 originals being produced on Amazon Prime Video, or digitisation of stores, it shows that Amazon continues to be bullish on India. Also, different businesses have different investment cycles. Building a data centre is a lot of investment, and then it plays out over time. The stores have different formats of investment. The big takeaway for me is that Amazon continues to be excited about what's happening in India.

**You exited some bets you made earlier, like food delivery and edtech. What kind of impact do you see the macroeconomic uncertainty having on Amazon's India business?**

India continues to be the bright spot; the numbers are reflective of that. The layoffs are part of the people planning process and an annual procedure. You have examples of Prime Video and payments, and we are very excited about what we see. This is a company of builders. We try to experiment in new areas, and sometimes they work and sometimes they don't.

We had a couple of initiatives, which we call 'sandboxing' within limited geography to learn more. When we assessed some of those businesses in the second half of last year, we felt it would be difficult to add value to the customer in a sustainable manner. We 'sunsetted' them. At the same time, in the middle of last year, we started social commerce, and in February this year, we launched Amazon Air. There is no change in our intent to experiment with the right framework or our interest in investing in India.

**PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED**  
 CIN: L07010KA1997PLC022322  
 Registered Office: Prestige Falcon Tower, No.19, Brunton Road, Bengaluru - 560025  
 Email: investors@prestigeconstructions.com; Website: www.prestigeconstructions.com

**Extracts from the Consolidated Audited Financial Results of Prestige Estates Projects Limited for the quarter and year ended March 31, 2023:**

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended					Year ended	Year ended	
		31-Mar-23		31-Dec-22		31-Mar-22			
		Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited			Unaudited
1.	Total income from operations	29,380	23,475	24,896	87,720	66,002			
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,854	2,340	2,844	10,896	7,179			
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,204	2,321	10,980	14,143	15,093			
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,054	1,617	9,453	10,668	12,148			
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,036	1,620	9,486	10,659	12,181			
6.	Paid up Equity Share Capital	4,009	4,009	4,009	4,009	4,009			
7.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic: Diluted:	11.68 11.68	3.19 3.19	23.43 23.43	23.49 23.49	28.69 28.69			

**Extracts from the Standalone Audited Financial Results of Prestige Estates Projects Limited for the quarter and year ended March 31, 2023:**

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended					Year ended	Year ended	
		31-Mar-23		31-Dec-22		31-Mar-22			
		Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited			Unaudited
1.	Total income from operations	12,890	13,222	19,129	44,367	48,708			
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	540	1,704	2,477	3,946	5,599			
3.	Net Profit for the period	452	1,382	7,017	3,409	9,473			
4.	Paid up Equity Share Capital	4,009	4,009	4,009	4,009	4,009			
5.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	62,484	62,040	59,684	62,484	59,684			
6.	Net worth	66,493	66,049	63,693	66,493	63,693			
7.	Debt	33,446	23,680	25,754	33,446	25,754			
8.	Debt Equity Ratio	0.50	0.36	0.40	0.50	0.40			
9.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic: Diluted:	1.13 1.13	3.45 3.45	17.50 17.50	8.50 8.50	23.63 23.63			
10.	Debtenture Redemption Reserve	1,018	906	564	1,018	564			
11.	Debt Service Coverage Ratio	1.13	1.36	1.20	0.91	0.67			
12.	Interest Service Coverage Ratio	1.56	2.97	3.90	2.16	2.75			
13.	Current Ratio	1.01	1.10	1.11	1.01	1.11			
14.	Long Term Debt to Working Capital	10.21	1.40	1.25	10.21	1.25			
15.	Bad Debts to accounts receivable ratio	0.00	-	-	0.00	-			
16.	Current Liability Ratio	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86			
17.	Total debts to total assets	0.19	0.14	0.15	0.19	0.15			
18.	Debtors Turnover	3.34	3.02	2.42	8.47	5.81			
19.	Inventory Turnover	0.23	0.23	0.32	0.80	0.74			
20.	Operating Margin %	16.87%	24.50%	18.51%	21.96%	18.16%			
21.	Net Profit Margin %	3.58%	10.63%	37.86%	7.87%	20.78%			

Notes:  
 a. The above audited results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30 May 2023.  
 b. The above is an extract of the detailed format of quarterly and half yearly financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 33 & 52 of the Listing Regulations. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 are available on the Company's website [www.prestigeconstructions.com](http://www.prestigeconstructions.com) and can also be viewed on the stock exchange websites of [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).  
 c. The results have been prepared in accordance with IND AS prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013.

By order of the Board of  
**Prestige Estates Projects Limited**  
 Sd/-  
 Irfan Razack  
 Chairman and Managing Director  
 DIN: 00209022

Place: Bengaluru  
 Date: May 30, 2023

**AstraZeneca**  
**AstraZeneca Pharma India Limited**  
 CIN: L24231KA1979PLC003563  
 Regd. Office : Block N1, 12th Floor, Manya Embassy Business Park, Rachenahalli, Outer Ring Road, Bangalore 560 045  
 Tel.: +91 80 6774 8000. Web: [www.astrazeneca.com/india](http://www.astrazeneca.com/india)

**Statement of financial results for the quarter and year ended March 31, 2023**

Rs in lakhs except for earnings per share data

Sl. No.	Particulars	3 months ended 31/03/2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 31/03/2022	Year ended 31/03/2023	Previous year ended 31/03/2022
		Refer Note 3	Refer Note 3	Audited	Audited
		1	Total income from operations	29,270.07	23,564.72
2	Net profit/(loss) for the period from ordinary activities before tax	2,327.98	3,703.05	13,410.46	8,303.62
3	Net profit/(loss) for the period from ordinary activities after tax	1,727.12	2,798.33	9,929.25	6,159.28
4	Total comprehensive income for the period after tax	1,518.53	2,710.71	9,667.82	5,985.98
5	Equity Share Capital	500.00	500.00	500.00	500.00
6	Other Equity	-	-	58,368.83	50,639.29
7	Basic and diluted earnings per share (of Rs 2 each)	6.91	11.19	39.72	24.64

Notes:  
 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and Company's website ([www.astrazeneca.com/india](http://www.astrazeneca.com/india)).  
 2 The financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.  
 3 The figures for the quarter ended 31 March 2023 and 31 March 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the respective financial year which were subjected to review by the statutory auditors.

By Order of the Board of Directors  
**AstraZeneca Pharma India Limited**  
 Sanjeev Kumar Panchal  
 Managing Director  
 DIN - 9823879

Place: Bangalore  
 Date: May 30, 2023

**Manaksia Coated Metals & Industries Limited**  
 Corporate Identity Number: L27100WB2010PLC144409  
 Registered office : 8/1 Lal Bazar Street, Bikaner Building, 3rd Floor, Kolkata - 700001  
 E-mail: [infomcmil@manaksia.com](mailto:infomcmil@manaksia.com), Website: [www.manaksia.coatedmetals.com](http://www.manaksia.coatedmetals.com)  
 Phone: +91-33-2243 5053 / 5054

**EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023**

(₹ in Lacs)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	Unaudited		Audited	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Total Income from Operations	18,793.01	18,156.88	65,734.07	65,630.46
Earning before Interest, Depreciation and Tax	1,482.45	1,391.12	4,279.01	4,338.59
Net Profit/(Loss) before taxes	913.35	458.17	1,176.63	1,140.56
Net Profit/(Loss) after taxes	773.93	358.31	935.89	862.46
Total Comprehensive Income [Comprising Profit / (Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax]	764.02	400.27	1,060.28	919.77
Equity Share Capital	655.34	655.34	655.34	655.34
Earnings per share (of Re 1/- each) (Not annualised):				
(a) Basic	1.18	0.55	1.43	1.32
(b) Diluted	1.18	0.55	1.43	1.32

**Key numbers of Standalone Financial Results :** (₹ in Lacs)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	Unaudited		Audited	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Total Income from Operations	18,775.49	18,156.94	65,683.11	65,617.04
Earning before Interest, Depreciation and Tax	1,007.29	1,398.79	3,809.30	4,335.09
Net Profit/(Loss) before taxes	447.21	474.42	742.78	1,172.94
Net Profit/(Loss) after taxes	308.84	387.56	503.09	907.84

Notes:  
 (a) The audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 30th May, 2023. The Statutory Auditors of the Company have carried out Audit of these results.  
 (b) The Consolidated Financial Results comprise of Manaksia Coated Metals & Industries Limited, its wholly owned subsidiary, Manaksia International FZE and JPA Snacks Pvt Ltd.  
 (c) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites, [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.manaksia.coatedmetals.com](http://www.manaksia.coatedmetals.com)

For and on behalf of the Board of Directors  
**Manaksia Coated Metals & Industries Limited**  
 Sd/-  
 Sushil Kumar Agrawal

